

**प्रेस नोट- थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 19.06.2022**  
**थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा 01 नफर वारन्टी को गिरफ्तार कर**  
**माननीय न्यायालय भेजा गया ।**

डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री हरिश चन्द्र क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री राजेश कुमार मौर्या थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 19.06.2022 को माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0 कक्ष सं02 नौगढ सिद्धार्थनगर द्वारा निर्गत सम्बन्धित वारंटी सूरज पुत्र मोतीलाल साकिन बोकनार थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर सम्बन्धित फौ0वाद सं0 4416/2020 धारा 498A/323/504/506 भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित वारंटी सूरज को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया

**गिरफ्तार वारंटी का विवरण –**

01. सूरज पुत्र मोतीलाल साकिन बोकनार थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

01. उ0नि0 नरेन्द्र नाथ थाना चिल्हिया सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट - दिनांक 19.06.2022 थाना महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर**  
**आज दिनांक 19-06-2022 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई- किरण का**  
**आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।**

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 19-06-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 02 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई । परामर्शन के बाद 01 पत्रावाली का सफल निस्तारण संभव हुआ । 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म०हे०का० सविता सिंह व महिला आरक्षी नेहा सिंह व महिला आरक्षी ब्यूटी गिरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

**निस्तारित पत्रावली का विवरण :-**

1. सुन्दरावती पत्नी अमित साकिन अकोल्हिया थाना गोलहौरा व जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2.

**प्रेस नोट - दिनांक 19.06.2022 थाना AHTU जनपद सिद्धार्थनगर  
सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा बचपन बचाओ अभियान के क्रम में तहसील व कस्बा  
सिद्धार्थनगर, शोहरतगढ़ स्थित होटल, ढाबा, मेन बाजार को चेक किया गया ।**

आज दिनांक 19.06.2022 को बालश्रम व भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान 'बचपन बचाओ आंदोलन व भिक्षावृत्ति के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में AHTU सिद्धार्थनगर द्वारा बाल श्रम व भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया गया, जिसमें 4 नाबालिग बच्चे बालश्रम व भिक्षावृत्ति करते पाए गए । चेकिंग के दौरान सभी दुकानदारों को बालश्रम न कराने हेतु जागरूक किया गया । संचालित ढाबा, होटल , मॉल ,दुकानों आदि की चेकिंग की गयी तथा मालिकों को हिदायत दी गयी कि किसी भी दशा में बाल श्रम ना कराए ।चेकिंग के दौरान रेस्क्यू किए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति जनपद सिद्धार्थनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चों को उनके परिजनों /अभिभावकों को सुपुर्द किया गया ।

**पुलिस टीम का विवरण-**

प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश सिंह, थाना AHTU  
हेड कांस्टेबल देवेन्द्र यादव  
आरक्षी पंकज प्रसाद भारती

**प्रेस नोट:दिनांक 19.06.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर  
यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान,  
पी0ए0सिस्टम व पम्पलेट के माध्यम से यातायात जागरूकता से सम्बन्धित  
प्रचार- प्रसार किया गया ।**

आज दिनांक 19.06.2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अखिलेश वर्मा के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री अमरेश

कुमार यादव मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0 सिस्टम व पम्पलेट के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया तथा वाहन चालकों को हेलमेट तथा सीट बेल्ट पहने के लिए प्रोत्साहित किया गया । वाहन चेकिंग के दौरान खतरनाक तरीके से ड्राइविंग / स्टंट बाइकिंग व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों व सड़क पर नियम विरुद्ध तरीके से खड़े वाहनों तथा यातायात नियमों का पालन न करने वाले 26 वाहनों से 30500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली संख्या में भारी कमी लायी जा सके ।